



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 माघ 1939 (श0)  
(सं0 पटना 135) पटना, मंगलवार, 13 फरवरी 2018

सं0 ICDS/40025/23-2017-519

समाज कल्याण विभाग  
(आई.सी.डी.एस. निदेशालय)

संकल्प

7 फरवरी 2018

**विषय :- समेकित बाल विकास सेवा योजनान्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) पर लाभुकों को दी जाने वाली पूरक पोषाहार की संशोधित दरों को राज्य में लागू करने की स्वीकृति।**

बिहार राज्य के सभी 38 जिलों के 544 बाल विकास परियोजना अन्तर्गत 107603 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 7115 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र कुल 114718 आंगनवाड़ी केन्द्र (मिनी सहित) स्वीकृत हैं। प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र (मिनी सहित) के पूरक पोषाहार के सभी योग्य लाभार्थी 06 माह से 72 माह तक के सामान्य बच्चे, कुपोषित बच्चे, अतिकुपोषित बच्चे एवं गर्भवती - शिशुवती महिलाओं को वर्ष में 300 दिनों तक पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

2. भारत सरकार के पत्र-NO. CD-1-11/2/2016-CD.I दिनांक 06.10.2017 द्वारा संसूचित संशोधित दर निम्न प्रकार है :-

(राशि रू0 में)

पूरक पोषाहार के लाभार्थी का प्रकार	पुराना दर प्रति लाभार्थी प्रति दिन	संशोधित दर प्रति लाभार्थी प्रति दिन
1	2	3
06 माह से 72 माह के सामान्य/कुपोषित बच्चे	6.00	8.00

पूरक पोषाहार के लाभार्थी का प्रकार	पुराना दर प्रति लाभार्थी प्रति दिन	संशोधित दर प्रति लाभार्थी प्रति दिन
1	2	3
06 माह से 72 माह के अतिकुपोषित बच्चे	9.00	12.00
गर्भवती-शिशुवती महिलाएं	7.00	9.50

3. उपरोक्त के आधार पर बिहार राज्य के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) में पूरक पोषाहार के सभी योग्य लाभार्थियों का सर्वेक्षण एवं भौतिक सत्यापन कर पंजी संधारित की जायेगी। प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) पर 03 से 06 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्र (मिनी सहित) पर गर्म-पका भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। 06 माह से 03 वर्ष के बच्चे, गर्भवती-शिशुवती महिलाओं को घर पर ले जाने वाला राशन (टी0एच0आर0) आंगनवाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। पूरक पोषाहार मद में आंगनवाड़ी केन्द्र (मिनी सहित) पर वास्तविक रूप से उपस्थित लाभार्थियों को ही निर्धारित दर पर पूरक पोषाहार देय होगा।

4. इस योजना के संचालन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा बाद में जारी किया जायेगा।

5. संचिका संख्या- ICDS/40025/23-2017 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-10/टि0 पर दिनांक 23.01.2018 को मंत्रिपरिषद की बैठक में पूरक पोषाहार के संशोधित दर की स्वीकृति प्रदान की गई है।

6. समाज कल्याण विभाग (आई.सी.डी.एस. निदेशालय) से पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या-3295 दिनांक 09.06.2014 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

7. संबंधित विभागों/पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी जा रही है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह०) अस्पष्ट,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,  
बिहार गजट (असाधारण) 135-571+1000-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>